



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 15, 2006/अग्रहायण 24, 1928

No. 276]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 2006/AGRAHAYANA 24, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

( पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2006

विषय : चीन जन. गणराज्य के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सिल्क फैब्रिक्स के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच के बारे में 15 नवम्बर, 2006 के अंतिम जांच परिणामों के लिए शुद्धि-पत्र ।

सं. 14/20/2004-डीजीएडी.-यतः वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिक अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिक (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारित) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन. गण. मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित 20-100 ग्राम प्रति मीटर सिल्क फैब्रिक के आयातों की पाटनरोधी जांच के बारे में 15 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. 14/20/2004-डीजीएडी के तहत अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे, अतः उक्त जांच परिणामों में एतद्वारा निम्नलिखित सुधार किए जाते हैं:-

1. उक्त अधिसूचना के पैरा 3 में उल्लिखित सीमाशुल्क अधिसूचना में एतद्वारा सुधार किया जाता है जिसे 31 मई, 2006 की अधिसूचना 52/2006-सी. शु. पढ़ा जाएगा ।
2. पैरा 5 और शुल्क तालिका में उल्लिखित टैरिफ मद सं. 5007 20 00 में एतद्वारा सुधार किया जाता है जिसे 5007 20 पढ़ा जाएगा ।
3. अंतिम जांच परिणामों के पैराग्राफ 127 में मै. झिजियांग कथाया इंट. कंपनी लि. के संबंध में पाटन मार्जिन तथा नमूने न लिए गए निर्यातकों के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन में सुधार किया जाता है जिसे क्रमशः 73% और 69% पढ़ा जाएगा ।
4. शुल्क तालिका के कॉलम 8 (राशि) में क्र. सं. 57 से 72 में उल्लिखित प्रविष्टियों को हटाकर उक्त तालिका के कॉलम 9 में लाया जाता है ।
5. शुल्क तालिका की क्रम सं. 1 से 8 तथा 57 से 64 में इस शुद्धि-पत्र के साथ संलग्न अनुबंध के अनुसार सुधार किया जाता है ।
6. अंतिम जांच परिणामों और शुल्क तालिका में उल्लिखित निर्यातक के नाम मै. सिचुआन सिल्क एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में एतद्वारा सुधार किया जाता है जिसे सिचुआन सिल्क इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ग्रुप कं. लि. पढ़ा जाएगा ।

क्रिस्टी एल. फेर्नान्डेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

| क्र.सं. | उप-शीर्ष  | वस्तुओं का विवरण | विनिर्देशन                                | शुल्क तालिका |                |         |  | राशि        | अनुबंध      |         |
|---------|---|------------------|---|--------------|----------------|---------|--|-------------|-------------|---------|
|         |   |                  |   | उद्गम का देश | निर्यात का देश | उत्पादक | निर्यातक                               |             | माप की इकाई | मुद्रा  |
| 1       | 2   | 3                | 4   | 5            | 6              | 7       | 8                                      | 9           | 10          | 11      |
| 1       | 5007.1000<br>5007.20<br>5007.2010<br>5007.2090<br>5007.9000 | सिल्क फ़ैब्रिक्स | निम्नलिखित भार रेंज की क्रोप              | चीन जन. गण.  | कोई भी देश     | कोई भी  | मै. ज़ेजियांग कंथाया इंटरनेशनल कं. लि. | निम्नानुसार | मीटर        | अम. डॉ. |
| 2       | तदैव  | तदैव             | तदैव                                      | कोई          | चीन जन. गण.    | कोई भी  | तदैव                                   | निम्नानुसार | मीटर        | अम. डॉ. |
|         |   |                  | 20 से अधिक और 25 तक जिसमें 25 शामिल है।   |              |                |         |  | 1.662       |             |         |
|         |   |                  | 25 से अधिक और 30 तक जिसमें 30 शामिल है।   |              |                |         |  | 1.833       |             |         |
|         |   |                  | 30 से अधिक और 35 तक जिसमें 35 शामिल है।   |              |                |         |  | 2.004       |             |         |
|         |   |                  | 35 से अधिक और 40 तक जिसमें 40 शामिल है।   |              |                |         |  | 2.175       |             |         |
|         |   |                  | 40 से अधिक और 45 तक जिसमें 45 शामिल है।   |              |                |         |  | 2.252       |             |         |
|         |   |                  | 45 से अधिक और 50 तक जिसमें 50 शामिल है।   |              |                |         |  | 2.158       |             |         |
|         |   |                  | 50 से अधिक और 55 तक जिसमें 55 शामिल है।   |              |                |         |  | 2.336       |             |         |
|         |   |                  | 55 से अधिक और 60 तक जिसमें 60 शामिल है।   |              |                |         |  | 2.840       |             |         |
|         |   |                  | 60 से अधिक और 65 तक जिसमें 65 शामिल है।   |              |                |         |  | 2.899       |             |         |
|         |   |                  | 65 से अधिक और 70 तक जिसमें 70 शामिल है।   |              |                |         |  | 3.203       |             |         |
|         |   |                  | 70 से अधिक और 75 तक जिसमें 75 शामिल है।   |              |                |         |  | 3.374       |             |         |
|         |   |                  | 75 से अधिक और 80 तक जिसमें 80 शामिल है।   |              |                |         |  | 3.448       |             |         |
|         |   |                  | 80 से अधिक और 85 तक जिसमें 85 शामिल है।   |              |                |         |  | 3.716       |             |         |
|         |   |                  | 85 से अधिक और 90 तक जिसमें 90 शामिल है।   |              |                |         |  | 3.887       |             |         |
|         |   |                  | 90 से अधिक और 95 तक जिसमें 95 शामिल है।   |              |                |         |  | 4.059       |             |         |
|         |   |                  | 95 से अधिक और 100 तक जिसमें 100 शामिल है। |              |                |         |  | 4.230       |             |         |
| 3       | 5007.1000<br>5007.20<br>5007.2010<br>5007.2090<br>5007.9000 | सिल्क फ़ैब्रिक्स | निम्नलिखित भार रेंज की जॉर्जेट व शिफॉन    | चीन जन. गण.  | कोई भी देश     | कोई भी  | मै. ज़ेजियांग कंथाया इंटरनेशनल कं. लि. | निम्नानुसार | मीटर        | अम. डॉ. |
| 4       | तदैव  | तदैव             | तदैव                                      | कोई          | चीन जन. गण.    | कोई भी  | तदैव                                   | निम्नानुसार | मीटर        | अम. डॉ. |
|         |   |                  | 20 से अधिक और 25 तक जिसमें 25 शामिल है।   |              |                |         |  | 1.690       |             |         |
|         |   |                  | 25 से अधिक और 30 तक जिसमें 30 शामिल है।   |              |                |         |  | 1.882       |             |         |
|         |   |                  | 30 से अधिक और 35 तक जिसमें 35 शामिल है।   |              |                |         |  | 2.072       |             |         |
|         |   |                  | 35 से अधिक और 40 तक जिसमें 40 शामिल है।   |              |                |         |  | 2.206       |             |         |
|         |   |                  | 40 से अधिक और 45 तक जिसमें 45 शामिल है।   |              |                |         |  | 2.418       |             |         |
|         |   |                  | 45 से अधिक और 50 तक जिसमें 50 शामिल है।   |              |                |         |  | 2.642       |             |         |
|         |   |                  | 50 से अधिक और 55 तक जिसमें 55 शामिल है।   |              |                |         |  | 2.832       |             |         |
|         |   |                  | 55 से अधिक और 60 तक जिसमें 60 शामिल है।   |              |                |         |  | 2.976       |             |         |
|         |   |                  | 60 से अधिक और 65 तक जिसमें 65 शामिल है।   |              |                |         |  | 3.025       |             |         |
|         |   |                  | 65 से अधिक और 70 तक जिसमें 70 शामिल है।   |              |                |         |  | 3.294       |             |         |
|         |   |                  | 70 से अधिक और 75 तक जिसमें 75 शामिल है।   |              |                |         |  | 3.562       |             |         |
|         |   |                  | 75 से अधिक और 80 तक जिसमें 80 शामिल है।   |              |                |         |  | 3.622       |             |         |

|   |   |                    |   |                |             |        |  |             |      |         |
|---|---|--------------------|---|----------------|-------------|--------|--|-------------|------|---------|
|   |   |                    | 80 से अधिक और 85 तक जिसमें 85 शामिल है।           |                |             |        | 3.971  |             |      |         |
|   |   |                    | 85 से अधिक और 90 तक जिसमें 90 शामिल है।           |                |             |        | 4.160  |             |      |         |
|   |   |                    | 90 से अधिक और 95 तक जिसमें 95 शामिल है।           |                |             |        | 4.351  |             |      |         |
|   |   |                    | 95 से अधिक और 100 तक जिसमें 100 शामिल है।         |                |             |        | 4.526  |             |      |         |
| 5 | 5007.1000<br>5007.20<br>5007.2010<br>5007.2090<br>5007.9000 | सिल्क<br>फैब्रिक्स | निम्नलिखित भार<br>रेंज की हेबुताई                 | चीन जन.<br>गण. | कोई भी देश  | कोई भी | मै.<br>झेजियांग<br>कैथाया<br>इंटरनेशनल<br>ल.कं.<br>लि. | निम्नानुसार | मीटर | अम. डॉ. |
| 6 | तदैव  | तदैव               | तदैव  | कोई            | चीन जन. गण. | कोई भी | तदैव   | निम्नानुसार | मीटर | अम. डॉ. |
|   |   |                    | 20 से अधिक और 25 तक जिसमें 25 शामिल है।           |                |             |        | 1.690  |             |      |         |
|   |   |                    | 25 से अधिक और 30 तक जिसमें 30 शामिल है।           |                |             |        | 1.867  |             |      |         |
|   |   |                    | 30 से अधिक और 35 तक जिसमें 35 शामिल है।           |                |             |        | 2.044  |             |      |         |
|   |   |                    | 35 से अधिक और 40 तक जिसमें 40 शामिल है।           |                |             |        | 2.221  |             |      |         |
|   |   |                    | 40 से अधिक और 45 तक जिसमें 45 शामिल है।           |                |             |        | 2.196  |             |      |         |
|   |   |                    | 45 से अधिक और 50 तक जिसमें 50 शामिल है।           |                |             |        | 2.575  |             |      |         |
|   |   |                    | 50 से अधिक और 55 तक जिसमें 55 शामिल है।           |                |             |        | 2.752  |             |      |         |
|   |   |                    | 55 से अधिक और 60 तक जिसमें 60 शामिल है।           |                |             |        | 2.929  |             |      |         |
|   |   |                    | 60 से अधिक और 65 तक जिसमें 65 शामिल है।           |                |             |        | 3.106  |             |      |         |
|   |   |                    | 65 से अधिक और 70 तक जिसमें 70 शामिल है।           |                |             |        | 3.283  |             |      |         |
|   |   |                    | 70 से अधिक और 75 तक जिसमें 75 शामिल है।           |                |             |        | 3.460  |             |      |         |
|   |   |                    | 75 से अधिक और 80 तक जिसमें 80 शामिल है।           |                |             |        | 3.637  |             |      |         |
|   |   |                    | 80 से अधिक और 85 तक जिसमें 85 शामिल है।           |                |             |        | 3.814  |             |      |         |
|   |   |                    | 85 से अधिक और 90 तक जिसमें 90 शामिल है।           |                |             |        | 3.991  |             |      |         |
|   |   |                    | 90 से अधिक और 95 तक जिसमें 95 शामिल है।           |                |             |        | 4.168  |             |      |         |
|   |   |                    | 95 से अधिक और 100 तक जिसमें 100 शामिल है।         |                |             |        | 4.344  |             |      |         |
| 7 | 5007.1000<br>5007.20<br>5007.2010<br>5007.2090<br>5007.9000 | सिल्क<br>फैब्रिक्स | निम्नलिखित भार<br>रेंज की अन्य (टसर<br>को छोड़कर) | चीन जन.<br>गण. | कोई भी देश  | कोई भी | मै.<br>झेजियांग<br>कैथाया<br>इंटरनेशनल<br>ल.कं.<br>लि. | निम्नानुसार | मीटर | अम. डॉ. |
| 8 | तदैव  | तदैव               | तदैव  | कोई            | चीन जन. गण. | कोई भी | तदैव   | निम्नानुसार | मीटर | अम. डॉ. |
|   |   |                    | 20 से अधिक और 25 तक जिसमें 25 शामिल है।           |                |             |        | 1.665  |             |      |         |
|   |   |                    | 25 से अधिक और 30 तक जिसमें 30 शामिल है।           |                |             |        | 1.837  |             |      |         |
|   |   |                    | 30 से अधिक और 35 तक जिसमें 35 शामिल है।           |                |             |        | 2.009  |             |      |         |
|   |   |                    | 35 से अधिक और 40 तक जिसमें 40 शामिल है।           |                |             |        | 2.181  |             |      |         |
|   |   |                    | 40 से अधिक और 45 तक जिसमें 45 शामिल है।           |                |             |        | 2.353  |             |      |         |
|   |   |                    | 45 से अधिक और 50 तक जिसमें 50 शामिल है।           |                |             |        | 2.525  |             |      |         |
|   |   |                    | 50 से अधिक और 55 तक जिसमें 55 शामिल है।           |                |             |        | 2.697  |             |      |         |
|   |   |                    | 55 से अधिक और 60 तक जिसमें 60 शामिल है।           |                |             |        | 2.869  |             |      |         |
|   |   |                    | 60 से अधिक और 65 तक जिसमें 65 शामिल है।           |                |             |        | 3.041  |             |      |         |
|   |   |                    | 65 से अधिक और 70 तक जिसमें 70 शामिल है।           |                |             |        | 3.213  |             |      |         |
|   |   |                    | 70 से अधिक और 75 तक जिसमें 75 शामिल है।           |                |             |        | 3.385  |             |      |         |
|   |   |                    | 75 से अधिक और 80 तक जिसमें 80 शामिल है।           |                |             |        | 3.557  |             |      |         |
|   |   |                    | 80 से अधिक और 85 तक जिसमें 85 शामिल है।           |                |             |        | 3.730  |             |      |         |
|   |   |                    | 85 से अधिक और 90 तक जिसमें 90 शामिल है।           |                |             |        | 3.901  |             |      |         |
|   |   |                    | 90 से अधिक और 95 तक जिसमें 95 शामिल है।           |                |             |        | 3.870  |             |      |         |
|   |   |                    | 95 से अधिक और 100 तक जिसमें 100 शामिल है।         |                |             |        | 4.245  |             |      |         |

|    |  |               |   |   |              |     |   |                          |      |           |
|----|--|---------------|---|---|--------------|-----|---|--------------------------|------|-----------|
| 57 | 5007.1000<br>5007.20005<br>5007.2010<br>5007.2090<br>5007.9000 | सिल्क फॅब्रिक | निम्नलिखित<br>भार रेंज वाले<br>क्रोप                | चीन जन गण                                     | कोई देश      | कोई | मै0 गुईझाऊ<br>फार्च्यून ग्रीन<br>प्रोडक्ट्स<br>इम्पोर्ट<br>एक्सपोर्ट कं.<br>लि. | नीचे<br>दिए गए<br>अनुसार | मीटर | अम<br>डा. |
| 58 | वही  | वही           | वही   | कोई   | चीन जन<br>गण | कोई | वही   | नीचे<br>दिए गए<br>अनुसार | मीटर | अम<br>डा. |
|    |  |               |   | 20 से अधिक तथा 25 तक जिसमें 25<br>शामिल हैं   |              |     | 1.662   |                          |      |           |
|    |  |               |   | 25 से अधिक तथा 30 तक जिसमें 30<br>शामिल हैं   |              |     | 1.833   |                          |      |           |
|    |  |               |   | 30 से अधिक तथा 35 तक जिसमें 35<br>शामिल हैं   |              |     | 2.004   |                          |      |           |
|    |  |               |   | 35 से अधिक तथा 40 तक जिसमें 40<br>शामिल हैं   |              |     | 2.175   |                          |      |           |
|    |  |               |   | 40 से अधिक तथा 45 तक जिसमें 45<br>शामिल हैं   |              |     | 2.347   |                          |      |           |
|    |  |               |   | 45 से अधिक तथा 50 तक जिसमें 50<br>शामिल हैं   |              |     | 2.518   |                          |      |           |
|    |  |               |   | 50 से अधिक तथा 55 तक जिसमें 55<br>शामिल हैं   |              |     | 2.689   |                          |      |           |
|    |  |               |   | 55 से अधिक तथा 60 तक जिसमें 60<br>शामिल हैं   |              |     | 2.586   |                          |      |           |
|    |  |               |   | 60 से अधिक तथा 65 तक जिसमें 65<br>शामिल हैं   |              |     | 3.031   |                          |      |           |
|    |  |               |   | 65 से अधिक तथा 70 तक जिसमें 70<br>शामिल हैं   |              |     | 3.203   |                          |      |           |
|    |  |               |   | 70 से अधिक तथा 75 तक जिसमें 75<br>शामिल हैं   |              |     | 3.374   |                          |      |           |
|    |  |               |   | 75 से अधिक तथा 80 तक जिसमें 80<br>शामिल हैं   |              |     | 3.545   |                          |      |           |
|    |  |               |   | 80 से अधिक तथा 85 तक जिसमें 85<br>शामिल हैं   |              |     | 3.716   |                          |      |           |
|    |  |               |   | 85 से अधिक तथा 90 तक जिसमें 90<br>शामिल हैं   |              |     | 3.887   |                          |      |           |
|    |  |               |   | 90 से अधिक तथा 95 तक जिसमें 95<br>शामिल हैं   |              |     | 4.059   |                          |      |           |
|    |  |               |   | 95 से अधिक तथा 100 तक जिसमें 100<br>शामिल हैं |              |     | 4.230   |                          |      |           |
| 59 | 5007.1000<br>5007.20<br>5007.2010<br>5007.2090<br>5007.9000    | सिल्क फॅब्रिक | निम्नलिखित<br>भार रेंज वाले<br>जार्जेट तथा<br>शिफान | चीन जन गण                                     | कोई देश      | कोई | मै0 गुईझाऊ<br>फार्च्यून ग्रीन<br>प्रोडक्ट्स<br>इम्पोर्ट<br>एक्सपोर्ट कं.<br>लि. | नीचे<br>दिए गए<br>अनुसार | मीटर | अम<br>डा. |

|  | 60 | वही   | वही           | वही  | कोई       | चीन जन गण | कोई | वही   | नीचे दिए गए अनुसार | मीटर | अम. डा. |
|--|----|---|---------------|--|-----------|-----------|-----|---|--------------------|------|---------|
|  |    |   |               | 20 से अधिक तथा 25 तक जिसमें 25 शामिल हैं   |           |           |     | 1.662   |                    |      |         |
|  |    |   |               | 25 से अधिक तथा 30 तक जिसमें 30 शामिल हैं   |           |           |     | 1.833   |                    |      |         |
|  |    |   |               | 30 से अधिक तथा 35 तक जिसमें 35 शामिल हैं   |           |           |     | 2.004   |                    |      |         |
|  |    |   |               | 35 से अधिक तथा 40 तक जिसमें 40 शामिल हैं   |           |           |     | 2.175   |                    |      |         |
|  |    |   |               | 40 से अधिक तथा 45 तक जिसमें 45 शामिल हैं   |           |           |     | 2.347   |                    |      |         |
|  |    |   |               | 45 से अधिक तथा 50 तक जिसमें 50 शामिल हैं   |           |           |     | 2.518   |                    |      |         |
|  |    |   |               | 50 से अधिक तथा 55 तक जिसमें 55 शामिल हैं   |           |           |     | 2.689   |                    |      |         |
|  |    |   |               | 55 से अधिक तथा 60 तक जिसमें 60 शामिल हैं   |           |           |     | 2.586   |                    |      |         |
|  |    |   |               | 60 से अधिक तथा 65 तक जिसमें 65 शामिल हैं   |           |           |     | 3.031   |                    |      |         |
|  |    |   |               | 65 से अधिक तथा 70 तक जिसमें 70 शामिल हैं   |           |           |     | 3.203   |                    |      |         |
|  |    |   |               | 70 से अधिक तथा 75 तक जिसमें 75 शामिल हैं   |           |           |     | 3.374   |                    |      |         |
|  |    |   |               | 75 से अधिक तथा 80 तक जिसमें 80 शामिल हैं   |           |           |     | 3.545   |                    |      |         |
|  |    |   |               | 80 से अधिक तथा 85 तक जिसमें 85 शामिल हैं   |           |           |     | 3.716   |                    |      |         |
|  |    |   |               | 85 से अधिक तथा 90 तक जिसमें 90 शामिल हैं   |           |           |     | 3.887   |                    |      |         |
|  |    |   |               | 90 से अधिक तथा 95 तक जिसमें 95 शामिल हैं   |           |           |     | 3.059   |                    |      |         |
|  |    |   |               | 95 से अधिक तथा 100 तक जिसमें 100 शामिल हैं |           |           |     | 4.230   |                    |      |         |
|  | 61 | 5007.1000<br>5007.20<br>5007.2010<br>5007.2090<br>5007.9000 | सिल्क फैब्रिक | निम्नलिखित<br>भार रेंज वाले<br>हबुतई       | चीन जन गण | कोई देश   | कोई | मै0 गुईझाऊ<br>फार्च्यून ग्रीन<br>प्रोडक्ट्स<br>इम्पोर्ट<br>एक्सपोर्ट कं.<br>लि. | नीचे दिए गए अनुसार | मीटर | अम. डा. |
|  | 62 | वही   | वही           | वही  | कोई       | चीन जन गण | कोई | वही   | नीचे दिए गए अनुसार | मीटर | अम. डा. |
|  |    |   |               | 20 से अधिक तथा 25 तक जिसमें 25 शामिल हैं   |           |           |     | 1.609   |                    |      |         |
|  |    |   |               | 25 से अधिक तथा 30 तक जिसमें 30 शामिल हैं   |           |           |     | 1.867   |                    |      |         |

3396 9/708-2

|    |   |                |  |           |              |     |  |                         |      |    |
|----|---|----------------|--|-----------|--------------|-----|--|-------------------------|------|----|
|    |   |                | शामिल हैं  |           |              |     |  |                         |      |    |
|    |   |                | 30 से अधिक तथा 35 तक जिसमें 35 शामिल हैं               |           |              |     | 2.044  |                         |      |    |
|    |   |                | 35 से अधिक तथा 40 तक जिसमें 40 शामिल हैं               |           |              |     | 2.104  |                         |      |    |
|    |   |                | 40 से अधिक तथा 45 तक जिसमें 45 शामिल हैं               |           |              |     | 2.398  |                         |      |    |
|    |   |                | 45 से अधिक तथा 50 तक जिसमें 50 शामिल हैं               |           |              |     | 2.575  |                         |      |    |
|    |   |                | 50 से अधिक तथा 55 तक जिसमें 55 शामिल हैं               |           |              |     | 2.752  |                         |      |    |
|    |   |                | 55 से अधिक तथा 60 तक जिसमें 60 शामिल हैं               |           |              |     | 2.826  |                         |      |    |
|    |   |                | 60 से अधिक तथा 65 तक जिसमें 65 शामिल हैं               |           |              |     | 3.106  |                         |      |    |
|    |   |                | 65 से अधिक तथा 70 तक जिसमें 70 शामिल हैं               |           |              |     | 3.263  |                         |      |    |
|    |   |                | 70 से अधिक तथा 75 तक जिसमें 75 शामिल हैं               |           |              |     | 3.460  |                         |      |    |
|    |   |                | 75 से अधिक तथा 80 तक जिसमें 80 शामिल हैं               |           |              |     | 3.637  |                         |      |    |
|    |   |                | 80 से अधिक तथा 85 तक जिसमें 85 शामिल हैं               |           |              |     | 3.814  |                         |      |    |
|    |   |                | 85 से अधिक तथा 90 तक जिसमें 90 शामिल हैं               |           |              |     | 3.991  |                         |      |    |
|    |   |                | 90 से अधिक तथा 95 तक जिसमें 95 शामिल हैं               |           |              |     | 4.168  |                         |      |    |
|    |   |                | 95 से अधिक तथा 100 तक जिसमें 100 शामिल हैं             |           |              |     | 4.344  |                         |      |    |
| 63 | 5007.1000<br>5007.20<br>5007.2010<br>5007.2090<br>5007.9000 | सिल्क फ़ैब्रिक | निम्नलिखित<br>भार रेंज वाले<br>अन्य (तसर<br>को छोड़कर) | चीन जम गज | कोई देश      | कोई | मै0 गुईझाऊ<br>फाच्यून ग्रीन<br>प्रोडक्ट्स<br>इम्पोर्ट<br>एक्सपोर्ट क.<br>लि. | हिं<br>दिए गए<br>अनुसार | मीटर | कम |
| 64 | वही   | वही            | वही  | कोई       | चीन जम<br>गज | कोई | वही  | हिं<br>दिए गए<br>अनुसार | मीटर | कम |
|    |   |                | 20 से अधिक तथा 25 तक जिसमें 25 शामिल हैं               |           |              |     | 1.665  |                         |      |    |
|    |   |                | 25 से अधिक तथा 30 तक जिसमें 30 शामिल हैं               |           |              |     | 1.837  |                         |      |    |
|    |   |                | 30 से अधिक तथा 35 तक जिसमें 35 शामिल हैं               |           |              |     | 2.009  |                         |      |    |
|    |   |                | 35 से अधिक तथा 40 तक जिसमें 40 शामिल हैं               |           |              |     | 2.181  |                         |      |    |
|    |   |                | 40 से अधिक तथा 45 तक जिसमें 45 शामिल हैं               |           |              |     | 2.353  |                         |      |    |
|    |   |                | 45 से अधिक तथा 50 तक जिसमें 50 शामिल हैं               |           |              |     | 2.525  |                         |      |    |

|  |  |  |  |       |  |  |  |
|--|--|--|--|-------|--|--|--|
|  |  |  | 50 से अधिक तथा 55 तक जिसमें 55 शामिल हैं   | 2.697 |  |  |  |
|  |  |  | 55 से अधिक तथा 60 तक जिसमें 60 शामिल हैं   | 2.869 |  |  |  |
|  |  |  | 60 से अधिक तथा 65 तक जिसमें 65 शामिल हैं   | 3.041 |  |  |  |
|  |  |  | 65 से अधिक तथा 70 तक जिसमें 70 शामिल हैं   | 3.213 |  |  |  |
|  |  |  | 70 से अधिक तथा 75 तक जिसमें 75 शामिल हैं   | 3.385 |  |  |  |
|  |  |  | 75 से अधिक तथा 80 तक जिसमें 80 शामिल हैं   | 3.557 |  |  |  |
|  |  |  | 80 से अधिक तथा 85 तक जिसमें 85 शामिल हैं   | 3.730 |  |  |  |
|  |  |  | 85 से अधिक तथा 90 तक जिसमें 90 शामिल हैं   | 3.901 |  |  |  |
|  |  |  | 90 से अधिक तथा 95 तक जिसमें 95 शामिल हैं   | 4.073 |  |  |  |
|  |  |  | 95 से अधिक तथा 100 तक जिसमें 100 शामिल हैं | 4.245 |  |  |  |

# MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 14th December, 2006

**Subject : Corrigendum to the Final Findings dated 15th November, 2006 in anti-dumping investigation concerning imports of Silk Fabric originating in or exported from P.R. China.**

**No. 14/20/2004-DGAD.**—Whereas, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof, the Designated Authority had issued Final Findings *vide* Notification No. 14/20/2004-DGAD dated 15th November, 2006, concerning anti-dumping investigation into imports of Silk Fabric of 20—100 gms per meter originating in or exported from P.R. China. The following corrections are hereby incorporated in the said findings :

1. The customs Notification referred to in paragraph 3 of the said notification is hereby corrected to read as 52/2006-Customs dated 31st May, 2006.
2. Tariff item No. 5007 20 00 appearing in paragraph 5 and duty table is hereby corrected to read as 5007 20.
3. In paragraph 127 of the final findings the dumping margin in respect of M/s. Zhejiang Cathaya International Co. Ltd. and weighted average dumping margin for non-sampled exporters shall be corrected to read as 73% and 69% respectively.
4. The entries at Column 8 (amount), from serial No. 57 to 72, in the duty table are hereby shifted to Column 9 of the said table.
5. The entries at Sl. No.1 to 8 and 57 to 64 of the duty table are hereby corrected as per the annexure attached to this corrigendum.
6. The name of the exporter M/s. Sichuan Silk Export and Import appearing in the final findings and duty table is hereby corrected to read as Sichuan Silk Import and Export Group Co. Ltd.

CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority

| S.No. | Sub-Heading   | Description of Goods | Specification                                      | Country of Origin | Country of Export | Producer | Exporter                                    | Amount          | Unit of Measure | Currency |
|-------|---|----------------------|--|-------------------|-------------------|----------|---|-----------------|-----------------|----------|
| 1     | 2   | 3                    | 4  | 5                 | 6                 | 7        | 8   | 9               | 10              | 11       |
| 1     | 5007.1000<br>5007.20<br>5007.2010<br>5007.2090<br>5007.9000 | Silk Fabrics         | Crepe with following weight ranges                 | China PR          | Any Country       | Any      | M/s Zhejiang Cathaya International Co. Ltd. | As givebn below | Meter           | US\$     |
| 2     | Do  | Do                   | Do   | Any               | China PR          | Any      | Do  | As givebn below | Meters          | US\$     |
|       |   |                      | Above 20 upto & Including 25                       |                   |                   |          |   | 1.662           |                 |          |
|       |   |                      | Above 25 upto & Including 30                       |                   |                   |          |   | 1.833           |                 |          |
|       |   |                      | Above 30 upto & Including 35                       |                   |                   |          |   | 2.004           |                 |          |
|       |   |                      | Above 35 upto & Including 40                       |                   |                   |          |   | 2.175           |                 |          |
|       |   |                      | Above 40 upto & Including 45                       |                   |                   |          |   | 2.252           |                 |          |
|       |   |                      | Above 45 upto & Including 50                       |                   |                   |          |   | 2.518           |                 |          |
|       |   |                      | Above 50 upto & Including 55                       |                   |                   |          |   | 2.336           |                 |          |
|       |   |                      | Above 55 upto & Including 60                       |                   |                   |          |   | 2.840           |                 |          |
|       |   |                      | Above 60 upto & Including 65                       |                   |                   |          |   | 2.899           |                 |          |
|       |   |                      | Above 65 upto & Including 70                       |                   |                   |          |   | 3.203           |                 |          |
|       |   |                      | Above 70 upto & Including 75                       |                   |                   |          |   | 3.374           |                 |          |
|       |   |                      | Above 75 upto & Including 80                       |                   |                   |          |   | 3.448           |                 |          |
|       |   |                      | Above 80 upto & Including 85                       |                   |                   |          |   | 3.716           |                 |          |
|       |   |                      | Above 85 upto & Including 90                       |                   |                   |          |   | 3.887           |                 |          |
|       |   |                      | Above 90 upto & Including 95                       |                   |                   |          |   | 4.059           |                 |          |
|       |   |                      | Above 95 upto & Including 100                      |                   |                   |          |   | 4.230           |                 |          |
| 3     | 5007.1000<br>5007.20<br>5007.2010<br>5007.2090<br>5007.9000 | Silk Fabrics         | Georgette and Chiffon with following weight Ranges | China PR          | Any Country       | Any      | M/s Zhejiang Cathaya International Co. Ltd. | As givebn below | Meter           | US\$     |
| 4     | Do  | Do                   | Do   | Any               | China PR          | Any      | Do  | As givebn below | Meters          | US\$     |
|       |   |                      | Above 20 upto & Including 25                       |                   |                   |          |   | 1.690           |                 |          |
|       |   |                      | Above 25 upto & Including 30                       |                   |                   |          |   | 1.882           |                 |          |
|       |   |                      | Above 30 upto & Including 35                       |                   |                   |          |   | 2.072           |                 |          |
|       |   |                      | Above 35 upto & Including 40                       |                   |                   |          |   | 2.206           |                 |          |
|       |   |                      | Above 40 upto & Including 45                       |                   |                   |          |   | 2.418           |                 |          |
|       |   |                      | Above 45 upto & Including 50                       |                   |                   |          |   | 2.642           |                 |          |
|       |   |                      | Above 50 upto & Including 55                       |                   |                   |          |   | 2.832           |                 |          |
|       |   |                      | Above 55 upto & Including 60                       |                   |                   |          |   | 2.976           |                 |          |
|       |   |                      | Above 60 upto & Including 65                       |                   |                   |          |   | 3.025           |                 |          |
|       |   |                      | Above 65 upto & Including 70                       |                   |                   |          |   | 3.294           |                 |          |
|       |   |                      | Above 70 upto & Including 75                       |                   |                   |          |   | 3.562           |                 |          |
|       |   |                      | Above 75 upto & Including 80                       |                   |                   |          |   | 3.622           |                 |          |
|       |   |                      | Above 80 upto & Including 85                       |                   |                   |          |   | 3.971           |                 |          |
|       |   |                      | Above 85 upto & Including 90                       |                   |                   |          |   | 4.160           |                 |          |
|       |   |                      | Above 90 upto & Including 95                       |                   |                   |          |   | 4.351           |                 |          |
|       |   |                      | Above 95 upto & Including 100                      |                   |                   |          |   | 4.526           |                 |          |



|   |   |                 |   |          |                |     |   |                    |        |      |
|---|---|-----------------|---|----------|----------------|-----|---|--------------------|--------|------|
| 5 | 5007.1000<br>5007.20<br>5007.2010<br>5007.2090<br>5007.9000 | Silk<br>Fabrics | <b>Habutal<br/>with<br/>following<br/>weight<br/>Ranges</b>                       | China PR | Any<br>Country | Any | <b>M/s<br/>Zhejiang<br/>Cathaya<br/>Internatio<br/>nal Co.</b>          | As givebn<br>below | Meter  | US\$ |
| 6 | Do  | Do              | Do  | Any      | China PR       | Any | Do  | As givebn<br>below | Meters | US\$ |
|   |   |                 | Above 20 upto & Including 25  |          |                |     |   | 1.690              |        |      |
|   |   |                 | Above 25 upto & Including 30  |          |                |     |   | 1.867              |        |      |
|   |   |                 | Above 30 upto & Including 35  |          |                |     |   | 2.044              |        |      |
|   |   |                 | Above 35 upto & Including 40  |          |                |     |   | 2.221              |        |      |
|   |   |                 | Above 40 upto & Including 45  |          |                |     |   | 2.196              |        |      |
|   |   |                 | Above 45 upto & Including 50  |          |                |     |   | 2.575              |        |      |
|   |   |                 | Above 50 upto & Including 55  |          |                |     |   | 2.752              |        |      |
|   |   |                 | Above 55 upto & Including 60  |          |                |     |   | 2.929              |        |      |
|   |   |                 | Above 60 upto & Including 65  |          |                |     |   | 3.106              |        |      |
|   |   |                 | Above 65 upto & Including 70  |          |                |     |   | 3.283              |        |      |
|   |   |                 | Above 70 upto & Including 75  |          |                |     |   | 3.460              |        |      |
|   |   |                 | Above 75 upto & Including 80  |          |                |     |   | 3.637              |        |      |
|   |   |                 | Above 80 upto & Including 85  |          |                |     |   | 3.814              |        |      |
|   |   |                 | Above 85 upto & Including 90  |          |                |     |   | 3.991              |        |      |
|   |   |                 | Above 90 upto & Including 95  |          |                |     |   | 4.168              |        |      |
|   |   |                 | Above 95 upto & Including 100   |          |                |     |   | 4.344              |        |      |
| 7 | 5007.1000<br>5007.20<br>5007.2010<br>5007.2090<br>5007.9000 | Silk<br>Fabrics | <b>Others<br/>(Except<br/>tasar)<br/>with<br/>following<br/>weight<br/>Ranges</b> | China PR | Any<br>Country | Any | <b>M/s<br/>Zhejiang<br/>Cathaya<br/>Internatio<br/>nal Co.<br/>Ltd.</b> | As givebn<br>below | Meter  | US\$ |
| 8 | Do  | Do              | Do  | Any      | China PR       | Any | Do  | As givebn<br>below | Meters | US\$ |
|   |   |                 | Above 20 upto & Including 25  |          |                |     |   | 1.665              |        |      |
|   |   |                 | Above 25 upto & Including 30  |          |                |     |   | 1.837              |        |      |
|   |   |                 | Above 30 upto & Including 35  |          |                |     |   | 2.009              |        |      |
|   |   |                 | Above 35 upto & Including 40  |          |                |     |   | 2.181              |        |      |
|   |   |                 | Above 40 upto & Including 45  |          |                |     |   | 2.353              |        |      |
|   |   |                 | Above 45 upto & Including 50  |          |                |     |   | 2.525              |        |      |
|   |   |                 | Above 50 upto & Including 55  |          |                |     |   | 2.697              |        |      |
|   |   |                 | Above 55 upto & Including 60  |          |                |     |   | 2.869              |        |      |
|   |   |                 | Above 60 upto & Including 65  |          |                |     |   | 3.041              |        |      |
|   |   |                 | Above 65 upto & Including 70  |          |                |     |   | 3.213              |        |      |
|   |   |                 | Above 70 upto & Including 75  |          |                |     |   | 3.385              |        |      |
|   |   |                 | Above 75 upto & Including 80  |          |                |     |   | 3.557              |        |      |
|   |   |                 | Above 80 upto & Including 85  |          |                |     |   | 3.730              |        |      |
|   |   |                 | Above 85 upto & Including 90  |          |                |     |   | 3.901              |        |      |
|   |   |                 | Above 90 upto & Including 95  |          |                |     |   | 3.870              |        |      |
|   |   |                 | Above 95 upto & Including 100   |          |                |     |   | 4.245              |        |      |

|    |   |                 |   |          |                |     |   |                    |        |      |
|----|---|-----------------|---|----------|----------------|-----|---|--------------------|--------|------|
| 57 | 5007.1000<br>5007.20<br>5007.2010<br>5007.2090<br>5007.9000 | Silk<br>Fabrics | Crepe<br>with<br>following<br>weight<br>ranges                  | China PR | Any<br>Country | Any | M/s<br>Guizhou<br>Fortune<br>Green<br>products<br>Import<br>Exports<br>Co. Ltd. | As givebn<br>below | Meter  | US\$ |
| 58 | Do  | Do              | Do  | Any      | China PR       | Any | Do  | As givebn<br>below | Meters | US\$ |
|    |   |                 | Above 20 upto & Including 25                                    |          |                |     |   | 1.662              |        |      |
|    |   |                 | Above 25 upto & Including 30                                    |          |                |     |   | 1.833              |        |      |
|    |   |                 | Above 30 upto & Including 35                                    |          |                |     |   | 2.004              |        |      |
|    |   |                 | Above 35 upto & Including 40                                    |          |                |     |   | 2.175              |        |      |
|    |   |                 | Above 40 upto & Including 45                                    |          |                |     |   | 2.347              |        |      |
|    |   |                 | Above 45 upto & Including 50                                    |          |                |     |   | 2.518              |        |      |
|    |   |                 | Above 50 upto & Including 55                                    |          |                |     |   | 2.689              |        |      |
|    |   |                 | Above 55 upto & Including 60                                    |          |                |     |   | 2.586              |        |      |
|    |   |                 | Above 60 upto & Including 65                                    |          |                |     |   | 3.031              |        |      |
|    |   |                 | Above 65 upto & Including 70                                    |          |                |     |   | 3.203              |        |      |
|    |   |                 | Above 70 upto & Including 75                                    |          |                |     |   | 3.374              |        |      |
|    |   |                 | Above 75 upto & Including 80                                    |          |                |     |   | 3.545              |        |      |
|    |   |                 | Above 80 upto & Including 85                                    |          |                |     |   | 3.716              |        |      |
|    |   |                 | Above 85 upto & Including 90                                    |          |                |     |   | 3.887              |        |      |
|    |   |                 | Above 90 upto & Including 95                                    |          |                |     |   | 4.059              |        |      |
|    |   |                 | Above 95 upto & Including 100                                   |          |                |     |   | 4.230              |        |      |
| 59 | 5007.1000<br>5007.20<br>5007.2010<br>5007.2090<br>5007.9000 | Silk<br>Fabrics | Georgette<br>& Chiffon<br>with<br>following<br>weight<br>ranges | China PR | Any<br>Country | Any | M/s<br>Guizhou<br>Fortune<br>Green<br>products<br>Import<br>Exports<br>Co. Ltd. | As givebn<br>below | Meter  | US\$ |
| 60 | Do  | Do              | Do  | Any      | China PR       | Any | Do  | As givebn<br>below | Meters | US\$ |
|    |   |                 | Above 20 upto & Including 25                                    |          |                |     |   | 1.692              |        |      |
|    |   |                 | Above 25 upto & Including 30                                    |          |                |     |   | 1.882              |        |      |
|    |   |                 | Above 30 upto & Including 35                                    |          |                |     |   | 2.072              |        |      |
|    |   |                 | Above 35 upto & Including 40                                    |          |                |     |   | 2.262              |        |      |
|    |   |                 | Above 40 upto & Including 45                                    |          |                |     |   | 2.452              |        |      |
|    |   |                 | Above 45 upto & Including 50                                    |          |                |     |   | 2.642              |        |      |
|    |   |                 | Above 50 upto & Including 55                                    |          |                |     |   | 2.832              |        |      |
|    |   |                 | Above 55 upto & Including 60                                    |          |                |     |   | 3.022              |        |      |
|    |   |                 | Above 60 upto & Including 65                                    |          |                |     |   | 3.212              |        |      |
|    |   |                 | Above 65 upto & Including 70                                    |          |                |     |   | 3.401              |        |      |
|    |   |                 | Above 70 upto & Including 75                                    |          |                |     |   | 3.591              |        |      |
|    |   |                 | Above 75 upto & Including 80                                    |          |                |     |   | 3.781              |        |      |
|    |   |                 | Above 80 upto & Including 85                                    |          |                |     |   | 3.971              |        |      |
|    |   |                 | Above 85 upto & Including 90                                    |          |                |     |   | 4.160              |        |      |
|    |   |                 | Above 90 upto & Including 95                                    |          |                |     |   | 4.351              |        |      |
|    |   |                 | Above 95 upto & Including 100                                   |          |                |     |   | 4.526              |        |      |

|    |   |                 |   |          |                |     |   |                    |        |      |
|----|---|-----------------|---|----------|----------------|-----|---|--------------------|--------|------|
| 61 | 5007.1000<br>5007.20<br>5007.2010<br>5007.2090<br>5007.9000 | Silk<br>Fabrics | <b>Habutai<br/>with<br/>following<br/>weight<br/>ranges</b>                       | China PR | Any<br>Country | Any | <b>M/s<br/>Guizhou<br/>Fortune<br/>Green<br/>products<br/>Import<br/>Exports<br/>Co. Ltd.</b> | As givebn<br>below | Meter  | US\$ |
| 62 | Do  | Do              | Do  | Any      | China PR       | Any | Do  | As givebn<br>below | Meters | US\$ |
|    |   |                 | Above 20 upto & Including 25  |          |                |     |   | 1.690              |        |      |
|    |   |                 | Above 25 upto & Including 30  |          |                |     |   | 1.867              |        |      |
|    |   |                 | Above 30 upto & Including 35  |          |                |     |   | 2.044              |        |      |
|    |   |                 | Above 35 upto & Including 40  |          |                |     |   | 2.104              |        |      |
|    |   |                 | Above 40 upto & Including 45  |          |                |     |   | 2.398              |        |      |
|    |   |                 | Above 45 upto & Including 50  |          |                |     |   | 2.575              |        |      |
|    |   |                 | Above 50 upto & Including 55  |          |                |     |   | 2.752              |        |      |
|    |   |                 | Above 55 upto & Including 60  |          |                |     |   | 2.826              |        |      |
|    |   |                 | Above 60 upto & Including 65  |          |                |     |   | 3.106              |        |      |
|    |   |                 | Above 65 upto & Including 70  |          |                |     |   | 3.283              |        |      |
|    |   |                 | Above 70 upto & Including 75  |          |                |     |   | 3.460              |        |      |
|    |   |                 | Above 75 upto & Including 80  |          |                |     |   | 3.637              |        |      |
|    |   |                 | Above 80 upto & Including 85  |          |                |     |   | 3.814              |        |      |
|    |   |                 | Above 85 upto & Including 90  |          |                |     |   | 3.991              |        |      |
|    |   |                 | Above 90 upto & Including 95  |          |                |     |   | 4.168              |        |      |
|    |   |                 | Above 95 upto & Including 100   |          |                |     |   | 4.344              |        |      |
| 63 | 5007.1000<br>5007.20<br>5007.2010<br>5007.2090<br>5007.9000 | Silk<br>Fabrics | <b>Others<br/>(except<br/>Tasar)<br/>with<br/>following<br/>weight<br/>ranges</b> | China PR | Any<br>Country | Any | <b>M/s<br/>Guizhou<br/>Fortune<br/>Green<br/>products<br/>Import<br/>Exports<br/>Co. Ltd.</b> | As givebn<br>below | Meter  | US\$ |
| 64 | Do  | Do              | Do  | Any      | China PR       | Any | Do  | As givebn<br>below | Meters | US\$ |
|    |   |                 | Above 20 upto & Including 25  |          |                |     |   | 1.665              |        |      |
|    |   |                 | Above 25 upto & Including 30  |          |                |     |   | 1.837              |        |      |
|    |   |                 | Above 30 upto & Including 35  |          |                |     |   | 2.009              |        |      |
|    |   |                 | Above 35 upto & Including 40  |          |                |     |   | 2.181              |        |      |
|    |   |                 | Above 40 upto & Including 45  |          |                |     |   | 2.353              |        |      |
|    |   |                 | Above 45 upto & Including 50  |          |                |     |   | 2.525              |        |      |
|    |   |                 | Above 50 upto & Including 55  |          |                |     |   | 2.697              |        |      |
|    |   |                 | Above 55 upto & Including 60  |          |                |     |   | 2.869              |        |      |
|    |   |                 | Above 60 upto & Including 65  |          |                |     |   | 3.041              |        |      |
|    |   |                 | Above 65 upto & Including 70  |          |                |     |   | 3.213              |        |      |
|    |   |                 | Above 70 upto & Including 75  |          |                |     |   | 3.385              |        |      |
|    |   |                 | Above 75 upto & Including 80  |          |                |     |   | 3.557              |        |      |
|    |   |                 | Above 80 upto & Including 85  |          |                |     |   | 3.730              |        |      |
|    |   |                 | Above 85 upto & Including 90  |          |                |     |   | 3.901              |        |      |
|    |   |                 | Above 90 upto & Including 95  |          |                |     |   | 4.073              |        |      |
|    |   |                 | Above 95 upto & Including 100   |          |                |     |   | 4.245              |        |      |